

इकाई—5

(UNIT—5)

5. प्रबन्ध अंकेक्षण क्या है ? इसके उद्देश्यों को बताइए। यह लागत अंकेक्षण से किस प्रकार भिन्न है ?

What is Management Audit ? Discuss its objectives. How does it differ from cost audit ?

अथवा

(Or)

कम्पनी अंकेक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक के सम्बन्ध में क्या व्यवस्थाएँ हैं ?

What are the provisions of law regarding the appointment, removal and remuneration of company auditor ?

CD-2046

B. Com. (Part III) EXAMINATION, 2020

(Old Course)

(Compulsory)

Paper Fourth

AUDITING

Time : Three Hours

Maximum Marks : 75

Minimum Pass Marks : 25

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Attempt all the five questions. One question from each Unit is compulsory. All questions carry equal marks.

इकाई—1

(UNIT—1)

1. "एक अंकेक्षक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान कार्य करता है, शिकारी कुत्ते के सदृश नहीं।" इस कथन को समझाइए।

"An auditor is a watchdog and not a bloodhound." Explain and illustrate this statement.

CD-2046 1,100

(A-38)

(A-38) P. T. O.

अथवा
(Or)

नया अंकेक्षण आरम्भ करने से पूर्व अंकेक्षक द्वारा उठाये जाने वाले कदमों को बताइए। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?

Describe the steps to be taken by an Auditor before commencement of new audit. What points should be taken into consideration in drafting an Audit Programme ?

इकाई—2

(UNIT—2)

2. सम्पत्तियों के मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं ? सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए अंकेक्षक कहीं तक उत्तरदायी है ?

What are the objects of valuation of Assets ? How far the auditor is responsible as regards their valuation ?

अथवा
(Or)

सत्यापन का क्या अर्थ है ? एक अंकेक्षक किसी एक उत्पादक कम्पनी के चिट्ठे में दिखाई गई सम्पत्तियों का सत्यापन किस प्रकार करेगा ?

What is the meaning of verification ? How would an auditor verify the assets usually appearing in a balance sheet of a manufacturing company ?

इकाई—3

(UNIT—3)

3. कर्तव्य भंग की स्थिति में उत्पन्न, कम्पनी अंकेक्षक के दायित्वों की विवेचना कीजिए। एक अंकेक्षक किन-किन दशाओं में सापराध कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है ?

Discuss the liabilities of a company auditor on the ground of misfeasance. In what circumstances an auditor may be criminally liable ?

अथवा
(Or)

अंकेक्षण रिपोर्ट क्या है ? एक अंकेक्षण रिपोर्ट में कौन सी मुख्य बातें होती हैं ? समझाइए।

What is Audit Report ? What are the important points in an audit report ? Explain.

इकाई—4

(UNIT—4)

4. एक व्यापार में कपट की सम्भावना की गई है और आपको इस सम्बन्ध में अनुसंधान करने के लिए कहा गया है। संक्षेप में समझाइए कि इस सम्बन्ध में आप क्या करेंगे ?

A fraud is suspected in a business and you have been asked to carry out investigation. Explain briefly how would you proceed in the matter.

अथवा
(Or)

अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। एक बैंक की ओर से एक संस्था को जो उससे ऋण चाहती है, अनुसंधान करते समय आप किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे ?

Define investigation. On what main points you will pay special attention while investing a business concern, which wants loan on behalf of a bank ?